



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 08.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कबरई पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.11.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कबरई प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार द्वारा उ०नि० यशवन्त सिंह के नेतृत्व में गठित की गयी पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी/ **NBW** अभियुक्त श्यामबाबू यादव पुत्र रामानन्द उम्र करीब 45 वर्ष निवासी मुहल्ला आजाद नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा सम्बन्धित मु.नं. 1036/22 अ.सं. 62/05 धारा 25 ए एक्ट जो कि माननीय न्यायालय सि०ज०जू०डि०/एफटीसी महिला महोबा द्वारा **NBW** जारी किया गया था, के अभियुक्त को थाना क्षेत्र के मु० आजाद नगर (मोचीपुरा) कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया व बाद आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त को मां० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उय ०नि०शवन्त सिंह थाना कबरई जनपद महोबा।
2. का शुभम ०जायसवाल
3. कांअंकित कुमार ० दुबे

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त-

श्यामबाबू यादव पुत्र रामानन्द उम्र करीब 45 वर्ष निवासी मुहल्ला आजाद नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा



@mahobapolice



SP Mahoba @mahobapolice



7839857330



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 08.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना खन्ना पुलिस टीम ने अवैध तमंचा मय जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे अवैध शस्त्र निर्माण व अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 08.11.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खन्ना श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्योड़ी से खन्ना जाने वाली सम्पर्क मार्ग पर अभियुक्त करन अहिरवार पुत्र राजेश अहिरवार निवासी ग्राम बरभौली थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र 28 वर्ष को पुलिस हिरासत में लिया गया जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया, बरामदगी के आधार पर अभियुक्त करन उपरोक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0स0 119/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही कर अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

बरामदगी का विवरण:

एक अदद देशी तमन्चा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना।

गिरफ्तार अभियुक्त -

करन अहिरवार पुत्र राजेश अहिरवार निवासी ग्राम बरभौली थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र 28 वर्ष।



गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ सत्येन्द्र सिंह 0नि0
2. काविकास कुमार कुशवाहा 0



@mahobapolice



SP Mahoba @mahobapolice



7839857330



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 08.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



एण्टीरोमियो स्ववाद द्वारा छात्राओं/ महिलाओं को महिला सुरक्षा के बारे में किया गया जागरूक !!

उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से महिला सुरक्षा एवं जागरूकता के दृष्टिगत चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जनपदवार गठित किए गए महिला सुरक्षा विशेष दल के क्रम में आज दिनांक 08.11.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर गठित एण्टीरोमियो दल द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों एवं ग्रामों में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया।

जिसमें मिशनशक्ति के तहत एण्टीरोमियो दल ने बालिकाओं/ छात्राओं एवं महिलाओं को पुलिस द्वारा चलाई जा रही हेल्पलाइन नंबर- वूमेन पावर लाइन- 1090, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, महिला सहायता- 181, यूपी 112 साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में जानकारी दी गई तथा किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेह होने पर उक्त नंबर या तत्काल थाना पुलिस को सूचित करने के बारे में जागरूक किया गया।



@mahobapolice



SP Mahoba @mahobapolice

7839857330



प्रेस विज्ञापित
दिनांक - 08.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय में अवस्थापित अपराध शाखा का किया गया अर्दली रुम दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश ।

आज दिनांक 08.11.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर०के० गौतम द्वारा पुलिस कार्यालय में अवस्थापित अपराध शाखा का अर्दली रुम किया गया, इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध शाखा में लम्बित विवेचनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुये विवेचनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया, जिसके अन्तर्गत अपराध शाखा में नियुक्त समस्त विवेचकगणों को विवेचनाओं के त्वरित, समयबद्ध, निष्पक्षतापूर्ण निस्तारण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

इस दौरान अपराध शाखा प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार शर्मा व अपराध शाखा में नियुक्त निरीक्षक श्री राजेश कुमार सिंह, निरीक्षक श्री चन्द्रबलि सिंह मौजूद रहे ।

